

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 फरवरी 2024 — फाल्गुन 9, शक 1945

राजभवन  
रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-2/2023/रास/यू-10.— इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-01-2024 द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिये छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) एवं (संशोधित अधिनियम, 2016) की धारा 11(2) में निहित प्रावधान अंतर्गत समिति का गठन किया गया है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (संशोधित अधिनियम, 2016) की धारा 11(5) के तहत, गठित समिति की ओर से पैनल प्रस्तुत किये जाने की अवधि में, एतद्द्वारा चार सप्ताह की वृद्धि की गई है।

हस्ता./—

(नीरू सिंह)  
विधि अधिकारी एवं उप-सचिव (प्रभारी)  
राजभवन, छत्तीसगढ़.